



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 1174 राँची, गुरुवार, 27 दिसम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

18 दिसम्बर, 2018

संख्या-13/शक्ति प्र०-14/2014 का०- 9157-- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं०)-सह-उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक 34 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, त्रिस्तरीय पंचायत (उप) निर्वाचन, 2018 में विधि व्यवस्था संधारण के लिये गश्ती दण्डाधिकारी/सेक्टर दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित 21 पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत यह अधिसूचना उन्हें communicate किये जाने की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है ।

संख्या-13/शक्ति प्र०-14/2014 का०- 9158-- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं०)-सह-उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक 29 दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, त्रिस्तरीय पंचायत (उप) निर्वाचन, 2018 में विधि व्यवस्था संधारण के लिये पीठासीन पदाधिकारी/प्रथम मतदान

पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित 112 (56+56) पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत यह अधिसूचना उन्हें communicate किये जाने की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ए० के० सत्यजीत,
सरकार के संयुक्त सचिव।
